

आवेदन फॉर्म में पसंद अनुसार/ संस्थान भरने के लिए आवश्यक दिशा – निर्देश ।

1. आवेदक अपनी योग्यता अनुसार उन व्यवसायों की सूची तैयार करें , जिनके लिए वह आवेदन करना चाहते हैं । आप वेबसाइट पर “ All Insitutes” पेज पर सभी संस्थानों में उपलब्ध व्यवसायों की सूची देख सकते हैं ।
2. उपलब्ध विकल्पों में से जिले, व्यवसायों, व्यवसाय के प्रकार का चयन करें।
3. आप एक से अधिक जिले एवं व्यवसाय का चयन कर सकते हैं तथा अधिकतम 15 व्यवसायों का विकल्प जमा करवा सकते हैं ।
4. दाखिला फार्म में चयनित व्यवसायों में सिर्फ फार्म भरने की अंतिम तिथि से पहले ही बदलाव किया जा सकता है।
5. आवेदन करने के बाद आवेदक दाखिला फार्म भरने की अंतिम तिथि से पहले अपने प्रोफाइल में लॉगिन कर आवेदन फार्म को प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। और final confirmation बटन पर क्लिक करने से पहले व्यवसाय सम्बंधित जानकारी बदल सकते हैं ।
6. दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (Dual System of Training):

सरकार द्वारा राज्य की विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से भिन-2 व्यवसायों में ‘ दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली’ के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौते किए गए हैं। सत्र 2021-22 में इस प्रणाली के अंतर्गत दाखिले के लिए उपलब्ध संस्थानवर व्यवसाय यूनिटों की सूचि विवरण- पत्रिका के ‘ Annexure-B’ पर उपलब्ध है। इन व्यवसाय यूनिटों में दाखिला प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे की एक वर्षीय कोर्स के लिए 3-6 माह अवधि का तथा दो वर्षीय कोर्स के लिए 6 से 12 माह अवधि का प्रशिक्षण संस्थान में प्रदान किया जाएगा । इसके पश्चात् कोर्स की शेष अवधि में on job training सम्बंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान में करवाई जाएगी । दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत दाखिले हेतु प्रार्थी को (01.10.2021) आयु एवं शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी अनिवार्य हैं ।

- a.) चिन्हित किये गए जोखिमपूर्ण व्यवसाय यूनिट्स में दाखिले के लिए प्रार्थी की न्यूनतम आयु (01.10.2021 को) 17 वर्ष 8 महीने तथा अन्य व्यवसायों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए ।
- b.) प्रार्थी शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए तथा on job training पर जाने से पहले वे सम्बंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जारी किया गया मूल मेडिकल प्रमाण-पत्र जिसमें की blood pressure, chest X-Ray, B.M.I., Colour Blindness etc की जाँच की गई प्रस्तुत करेंगे ।
- c.) on job training के लिए दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत दाखिला प्राप्त प्रार्थियों की सुझबूझ एवं मनोभाव का विश्लेषण सम्बंधित प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा जिसके लिए प्रतेक प्रार्थी से पारम्परिक विचार-विमर्श किया जाएगा । इस विचार-विमर्श के आधार पर ही किसी प्रार्थी को on job training के लिए चुना जाएगा अथवा प्रार्थी को अयोग्य भी ठहराया जा सकता है ।

7. JIM-Uncha Majra (Gurugram) के लिए पात्रता मानदंड की जाँच करने के लिए यहाँ क्लिक करें ।